



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 618) पटना, बृहस्पतिवार, 11 जुलाई 2024

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

अधिसूचना

27 जून 2024

सं० अ०सां०नि०/स्था०9-01/2023/1033—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

- संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली “सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2024” कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम 1(i) का संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-1 के उप-नियम-(i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
 - यह नियमावली “अर्थ एवं सांख्यिकी लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007” कही जा सकेगी।”
- “सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम-2(iii) में संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-2 के उप-नियम-(iii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:—
 - “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
- “सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम 2 (vii) में संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-2 के उप-नियम-(vii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है—
 - “2 (iii) “निदेशालय” से अभिप्रेत है, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
- “सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम-4 में संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-4 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है—
 - भर्ती का श्रोत (i)—संवर्ग के पदों की मूलकोटि (निम्न वर्गीय लिपिक) के अधिकृत बल का 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पद सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी और ऐसी भर्ती लिखित परीक्षा पर आधारित आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

- (ii) सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।
- (iii) कुल सृजित पद का शेष 15% (पन्द्रह प्रतिशत) पद, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के नियमित स्थापना में कार्यरत इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) से वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

- (iv) अधिकृत बल का शेष 10% (दस प्रतिशत) पद बिहार राज्य के राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरे जायेंगे। राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली" के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत की जायेगी।

6. "सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 के नियम-5(ii) में संशोधन:—उक्त नियमावली के नियम-5 के उप-नियम-(ii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है—

"5(ii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता—अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या किसी अन्य बोर्ड/परीक्षा लेने वाली संस्था, जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से इन्टरमीडियट परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो।"

7. सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग के स्वीकृत पदों का विवरण अनुसूची-1 संलग्न है।

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन अथवा विलोपन कर सकेगी अथवा संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार,
प्रधान सचिव।

The 27th June 2024

No. D.E.S/Estt.9-01/2023/1033—in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following rules to amend the Statistics and evaluation clerical Cadre Recruitment and Promotion Rules, 2007.

1. Short title, extent and commencement. -(1) These rules may be called " Statistics and evaluation Clerical Cadre Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2024".

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Rule 1 (i) of Statistics and Evaluation Clerical Cadre Recruitment and Promotion Rules, 2007 . Sub rule (i) of Rule 1 of the said rules shall substituted as follows:

" (i) These rules may be called Economics and Statistics Clerical Cadre Recruitment and Promotion Rules, 2007".

3. In Rule 2 (iii) of Statistics and evaluation Clerical Cadre Recruitment and Promotion Rules, 2007.Amendment. Sub-rule (iii) of rule 2 of the said rules shall amended as follows:-

2(iii) "Appointing Authority" means the Director, Directorate of Economics and Statistics, Bihar, Patna.

4 Amendment in Rule 2 (vii) of Statistics and evaluation Clerical Cadre Recruitment and Promotion Rules, 2007, Sub-rule (vii) of Rule 2 of the Said rules is amended as follows:-

2(iii) "Directorate" means Directorate of Economics and Statistics, Bihar, Patna.

5. Amendment in Rule-4 of Statistics and evaluation Clerical Cadre Recruitment Promotion Rules, 2007. Rule 4 of the said rules is amended as follows:-

4. Source of recruitment (i) 75% (seventy five percent) of the authorized strength of the basic category (Lower Division Clerk) posts of the cadre will be filled by direct recruitment and such recruitment will be done on the basis of the recommendation of the commission based on the written examination.
- (ii) **Appointment can be made on compassionate grounds against the vacant posts available for direct recruitment.**
- (iii) **The remaining 15% (Fifteen Percent) of the total posts created** will be appointed on the recommendation of the departmental promotion committee by promotion on the basis of seniority cum merit from intermediate passed office attendants /attendants (special) working in the regular establishment of the Directorate of Economics and Statistics. Will be filled by the authority.
But the lower category clerks promoted in this manner will not be given the next increment after promotion and the first increment unless they pass the Computer Competency Test and Hindi Noting and Drafting Test. After passing the said examination, their service can be confirmed on the post of lower division clerk.
- (iv) The remaining 10% (ten percent) posts of the authorized force will be filled by excellent national level sportspersons of the state of Bihar. The "appointment of national level outstanding players will be done under the provisions contained under the Appointment Rules of Bihar Excellent Players" of the General Administration Department.

6 Statistics and evaluation Clerical Cadre Recruitment and Promotion Rules, 2007 Amendment in Rule-5 (ii). Sub-rule (ii) of Rule 5 of the said Rules shall amended as follows:-

- 5(ii) Minimum educational qualification. The Candidate must have passed the Intermediate examination or its equivalent examination from the Bihar School Examination Board or any other board/ examination taking institution recognized by the Government of Bihar.

7. Details of sanctioned posts of clerical cadre under Statistics and evaluation, Bihar, Patna are attached as Schedule-1

But the State Government may create or delete new posts or reorganize the cadre as per requirement from time to time.

By the order of Governor of Bihar,
K. Senthil Kumar,
Principal Secretary.

(अनुसूची-1)

लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या का ब्यौरा:-

पदनाम	वर्तमान पद
निम्नवर्गीय लिपिक वेतनमान 3050-4590 रु०	56
1. उच्च वर्गीय लिपिक-कोटि II वेतनमान 4000-6000रु०	38
2. प्रधान लिपिक कोटि I वेतनमान 4500-7000 रु०	9
कुल	103

कार्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरण:-

क्रमांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम	निम्नवर्गीय लिपिक का स्वीकृत पद	उच्च वर्गीय लिपिक का स्वीकृत पद	प्रधान लिपिक का स्वीकृत पद
1	1	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना	1	0	1
	2	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना	2	1	0
	3	जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालन्दा	1	1	0
	4	जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास	1	1	0
	5	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भभुआ	1	1	0
	6	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर	1	1	0
	7	जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर	1	1	0
2	8	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया	1	0	1
	9	जिला सांख्यिकी कार्यालय, गया	1	1	0
	10	जिला सांख्यिकी कार्यालय, जहानाबाद	1	1	0
	11	जिला सांख्यिकी कार्यालय, अरवल	1	0	0
	12	जिला सांख्यिकी कार्यालय, नवादा	1	1	0
	13	जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद	1	1	0
3	14	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	1	0	1
	15	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर	1	1	0
	16	जिला सांख्यिकी कार्यालय, बाँका	1	0	0
4	17	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा	1	0	1
	18	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण	1	1	0
	19	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीवान	1	1	0
	20	जिला सांख्यिकी कार्यालय, गोपालगंज	1	1	0
5	21	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	1	0	1
	22	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर	1	1	0
	23	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीतामढ़ी	1	1	0
	24	जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर	1	0	0
	25	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पंचम्पारण	1	1	0
	26	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूंचम्पारण	1	1	0
	27	जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली	1	1	0
6	28	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	1	0	1
	29	जिला सांख्यिकी कार्यालय, दरभंगा	1	1	0

क्रमांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम	निम्नवर्गीय लिपिक का स्वीकृत पद	उच्च वर्गीय लिपिक का स्वीकृत पद	प्रधान लिपिक का स्वीकृत पद
	30	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी	1	1	0
	31	जिला सांख्यिकी कार्यालय, समस्तीपुर	1	1	0
7	32	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा	1	0	1
	33	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा	1	1	0
	34	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल	1	1	0
	35	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा	1	1	0
8	36	उप निदेशक(सां०) कार्यालय, पूर्णियाप्रमंडल, पूर्णिया	1	0	1
	37	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णिया	1	1	0
	38	जिला सांख्यिकी कार्यालय, अररिया	1	1	0
	39	जिला सांख्यिकी कार्यालय, किशनगंज	1	1	0
	40	जिला सांख्यिकी कार्यालय, कटिहार	1	1	0
9	41	उप निदेशक (सां०) कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	1	0	1
	42	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर	1	1	0
	43	जिला सांख्यिकी कार्यालय, लखीसराय	1	0	0
	44	जिला सांख्यिकी कार्यालय, शेखपुरा	1	0	0
	45	जिला सांख्यिकी कार्यालय, जमुई	1	1	0
	46	जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया	1	1	0
	47	जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय	1	1	0
	48	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	8	5	0
	कुल-		56	38	09

संजय कुमार पंसारी,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 618-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>